

भारत में औपचारिक रोज़गार की स्थिति

प्रलिस के लिये:

भारत में औपचारिक रोज़गार की स्थिति, कर्मचारी भविय नधि (EPF), श्रमिक अधिकार, [महामारी](#), [श्रमिक बल सर्वेक्षण रिपोर्ट](#), [श्रम संहिता](#)

मेन्स के लिये:

भारत में औपचारिक रोज़गार की स्थिति

चर्चा में क्यों?

[कर्मचारी भविय नधि](#) (Employees Provident Fund- EPF) डेटा के अनुसार, EPF में योगदानकर्त्ताओं की संख्या में शुद्ध वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु यह भारत में बेरोज़गारी की ज़मीनी हकीकत के ठीक विपरीत है।

- भारत सरकार वर्ष 2017 से औपचारिक रोज़गार सृजन को मापने के लिये EPF के डेटा का उपयोग कर रही है।

औपचारिक रोज़गार:

परचिय:

- औपचारिक रोज़गार से आशय ऐसे रोज़गार से है जहाँ काम के नयिम और शर्तें श्रम कानूनों तथा रोज़गार अनुबंधों द्वारा वनियमिति व संरक्षण होते हैं।
- इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसे अनौपचारिक रोज़गार से अलग बनाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- **लिखित अनुबंध:** औपचारिक रोज़गार में आमतौर पर कार्य की शर्तों को रेखांकित करने वाला एक लिखित रोज़गार अनुबंध शामिल होता है, जिसमें काम से संबंधित ज़िम्मेदारियाँ, काम के घंटे, मुआवज़ा, लाभ तथा अन्य नयिम और शर्तें शामिल होती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा:** औपचारिक रोज़गार में शामिल कर्मचारी अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति नधि, भविय नधि, बेरोज़गारी लाभ और वित्तीय सुरक्षा के अन्य रूपों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार होते हैं।
- **श्रमिक अधिकार:** औपचारिक रोज़गार वाले कर्मचारियों के पास कानून द्वारा संरक्षित विशिष्ट श्रम संबंधी अधिकार हैं, जैसे-ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाज़ी, अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा और विवादों के मामले में कानूनी सहायता तक पहुँच आदि।
- **नयिमिति भुगतान:** औपचारिक रोज़गार में कर्मचारियों को आमतौर पर एक निश्चित समय पर नयिमिति रूप से वेतन मिलता है, जो उन्हें एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करता है।

अनौपचारिक रोज़गार:

- अनौपचारिक रोज़गार से तात्पर्य उन कार्यों से है जो श्रम कानूनों द्वारा वनियमिति अथवा संरक्षण नहीं हैं, जिनमें व्यवस्था का अभाव होता है और जो अक्सर सरकारी नरीक्षण के दायरे से बाहर संचालित होते हैं।
- अनौपचारिक रोज़गार के कारण उत्पन्न असुरक्षित कार्य परस्थितियाँ आय असमानता में वृद्धि और उत्पादकता में कमी के चलते आर्थिक विकास को बाधित कर सकती हैं।

औपचारिक रोज़गार के बारे में EPF डेटा:

- EPFO की वार्षिक रिपोर्ट में हाल के वर्षों में लगातार PF योगदान वाले नयिमिति योगदानकर्त्ताओं की संख्या में स्थिरता या गिरावट देखी गई है।
 - वर्ष 2012 से 2022 के बीच EPF में नयिमिति योगदानकर्त्ताओं की संख्या 30.9 मिलियन से बढ़कर 46.3 मिलियन हो गई।
 - वर्ष 2017 और 2022 के बीच नयिमिति योगदानकर्त्ताओं की संख्या 45.11 मिलियन से बढ़कर केवल 46.33 मिलियन हुई, जो इस अवधि के दौरान विकास में मंदी को दर्शाता है।

- कुल EPF नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन नियमित योगदानकर्त्ताओं में तदनुरूप वृद्धि न्यूनतम थी।
 - वर्ष 2017-2022 के बीच कुल EPF नामांकन 210.8 मिलियन से बढ़कर 277.4 मिलियन हो गया।
 - यह EPF नामांकन की कुल संख्या (277.4 मिलियन) और नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या (46.33 मिलियन) के बीच अंतर को इंगित करता है कि नामांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नियमित योगदान के परिणामस्वरूप नहीं है।
- अधिकांश EPF नामांकन अनियमित PF योगदान के साथ अस्थायी या आकस्मिक नौकरियों से संबंधित हैं।

Chart 1 | The chart shows the number of regular contributors (in million) to the scheme





Chart 2 | The chart shows the overall enrolments and the number of regular contributors in millions. In the past five years, regular contributors increased by 1.2 million but the total number of EPF enrolments increased by around 67 million



- योगदानकर्त्ताओं में गरिब के लिये अग्रणी कारक:
 - EPFO में अपने ही डेटा पर विवाद है और उसने नियमित योगदानकर्त्ताओं पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद कर दिया।
 - महामारी ने स्थितिको और खराब कर दिया, जिससे EPF योगदानकर्त्ताओं में गरिब आई।
 - भारत सरकार ने औपचारिक रोजगार डेटा के अन्य स्रोतों, जैसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Employment and Training- DGET) की उपेक्षा की, जो वर्ष 2013 से प्रकाशित नहीं किया गया है।

भारत में रोजगार संकट का परिदृश्य:

- बेरोजगारी दर:
 - वर्ष 2021-22 के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल

[सर्वेक्षण \(Periodic Labour Force Survey- PLFS\)](#) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में बेरोज़गारी दर 4.1% थी।

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):**
 - **सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी(Centre for Monitoring Indian Economy- CMIE)** के अनुसार, वित्तीय वर्ष (2022-23) में भारत का LFPR घटकर 39.5% हो गया।
 - यह वर्ष 2016-17 के बाद से सबसे कम LFPR है।
 - पुरुषों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) **66%** है, जो वगित सात वर्षों के नचिले पायदान पर है, जबकि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) मात्र 8.8% है।
 - श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) कामकाज़ी उमर की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का एक भाग है जो ऐसे नयोजति या बेरोज़गार लोगों को संदर्भित करती है, जो रोज़गार के इच्छुक हैं या उसकी तलाश में हैं।

भारत में रोज़गार की कमी के कारण:

- **औपचारिक एवं गुणवत्तापूर्ण रोज़गार का अभाव:**
 - चीन के आर्थिक मॉडल के विपरीत औपचारिक और नियमित रोज़गार, उचित वेतन का अभाव भारत के मध्यम वर्ग के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
 - गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी के कारण अधिक योग्य युवा सीमित नौकरियों के लिये प्रतस्पर्द्धा करते हैं, जिससे मज़बूत आर्थिक विकास के दावों के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- **सामाजिक कारणक:**
 - भारत में जात-व्यवस्था अभी भी प्रचलित है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में वशिष्ट जातियों के लिये कार्य करना वर्जित माना जाता है।
 - दीर्घ वयवसाय वाले संयुक्त परिवारों में ऐसे कई व्यक्ति मिल जायेंगे जो बेरोज़गार हैं और परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं।
- **कृषिका प्रभुत्व:**
 - भारत में लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है, जबकि भारत में कृषि अवकिसति है तथा केवल मौसमी रोज़गार प्रदान करती है।
- **लघु उद्योगों का पतन:**
 - औद्योगिक विकास का कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतकिल प्रभाव पडा है।
 - कुटीर उद्योगों का उत्पादन घटने के कारण काफी कारीगर बेरोज़गार हो गए।
- **सीमति शकिसा प्रणाली:**
 - वर्तमान के पूंजीवादी वशिव में नौकरियों में अत्यधिक वशिष्टता आ गई है लेकिन भारत की शकिसा प्रणाली इन नौकरियों के लिये आवश्यक उचित प्रशकिसण और वशिषज्जता प्रदान नहीं करती है।
 - इस प्रकार कई लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, वे कौशल की कमी के कारण बेरोज़गार हो जाते हैं।

भारत में सुरकषति श्रम का अधिकार:

- **संवैधानिक ढाँचा:**
 - भारतीय संविधान में श्रम को [समवर्ती सूची](#) में रखा गया है, इसलिये केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस विषय पर कानून बना सकती हैं।
- **न्यायिक व्याख्या:**
 - **रणधीर सहि बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'भले ही 'समान काम के लिये समान वेतन' का सिद्धांत भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 (c) के तहत इस लक्ष्य को हासिल किया जाना है।
- **वधिक ढाँचा:**
 - श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिये और कार्य-दशाओं में सुधार के लिये सरकार द्वारा कई विधायी तथा प्रशासनिक पहलें की गई हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में **4 श्रम संहिताओं** का एक समेकित समूह भी लाया गया है।
 - [वेतन संहिता, 2019](#)
 - [औद्योगिक संबंध संहिता, 2020](#)
 - [सामाजिक सुरकषा संहिता, 2020](#)
 - [व्यावसायिक सुरकषा, सवास्थय और कार्य सथति संहिता, 2020](#)

बेरोज़गारी रोकने हेतु सरकार की पहलें:

- [आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिये समर्थन \(SMILE\)](#)
- [पी.एम.-दकष \(प्रधानमंतीर दकष और कुशल संपूरण हतिग्राही\)](#)
- [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम \(MGNREGA\)](#)
- [प्रधानमंतीर कौशल विकास योजना \(PMKVY\)](#)
- [स्टार्ट-अप इंडिया योजना](#)
- [रोज़गार मेला](#)

आगे की राह

- EPF जैसे एकल डेटा स्रोत पर भरोसा करना, भारत के श्रम बाज़ार की जटिलता को नज़रअंदाज़ कर सकता है |PLFS जैसे व्यापक श्रम आँकड़े स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं और देश में नौकरियों के संकट को दूर करने के लिये तत्काल नीतित्त हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
- भारत में औपचारिक रोज़गार संकट के लिये अंतरनिहिति मुद्दों का समाधान करने और औपचारिक रोज़गार सृजन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- अधिक औपचारिक रोज़गार के अवसर पैदा करने और अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करने के लिये वनिर्माण तथा कुछ सेवाओं जैसे उच्च श्रम तीव्रता वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है जो उद्योग की मांगों के अनुरूप हों, ताकि कार्यबल की रोज़गार क्षमता बढ़ सके और बेहतर गुणवत्ता वाले औपचारिक रोज़गार मलि सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)

[स्रोत द हदि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-of-formal-employment-in-india>

